



घटाव



0120CH04

इनमें से निकालें तो



5 फूल



निकालें 2 फूल



तो बचे 3 फूल



4 पत्ते



निकालें 2 पत्ते



तो बचे पत्ते



तितलियाँ



उड़ गई

तो बची तितलियाँ



पेंसिल



निकालें पेंसिल



तो बची पेंसिल


शिक्षकों के लिए

घटाव की समझ विकसित करने के लिए संख्या 142 देखें।





घटाव



6

—

4

=

2



5

—



=



9

—



=



5

—





=






घटाव



—






=



—




=



—



=



—




=







घटाव




$$3 - 1 = 2$$



$$\square - \square = \square$$



$$\square - \square = \square$$



$$\square - \square = \square$$




घटाव




$$5 - 4 = \boxed{1}$$

$$\begin{array}{r} 5 \\ - 4 \\ \hline 1 \end{array}$$




$$6 - 2 = \boxed{}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ - 2 \\ \hline \end{array}$$




$$9 - 5 = \boxed{}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ - 5 \\ \hline \end{array}$$



$$4 - 4 = \boxed{}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ - 4 \\ \hline \end{array}$$



$$8 - 3 = \boxed{}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ - 3 \\ \hline \end{array}$$





घटाइए और मिलाइए

$4 - 2$

3

$9 - 5$

$7 - 2$

4

$8 - 2$

$9 - 1$

2

$7 - 4$

$5 - 1$

5

$8 - 0$

$6 - 3$

6

$5 - 3$

$7 - 1$

8

$8 - 3$

$5 - 0$

0

$7 - 7$



घटाइए

$4 - 2 = \boxed{2}$

$4 - 0 = \boxed{}$

$5 - 2 = \boxed{}$

$6 - 5 = \boxed{}$

$7 - 7 = \boxed{}$

$8 - 4 = \boxed{}$

$3 - 1 = \boxed{}$



$$\begin{array}{r} 2 \\ - 0 \\ \hline \boxed{2} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ - 7 \\ \hline \boxed{} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \\ - 0 \\ \hline \boxed{} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 8 \\ - 8 \\ \hline \boxed{} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 6 \\ - 4 \\ \hline \boxed{} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \\ - 2 \\ \hline \boxed{} \end{array}$$





छूटी हुई संख्याएँ लिखिए

$$8 - \square = \square 7$$

$$\square - 2 = \square 3$$

$$5 - \square = \square 1$$

$$\square - 3 = \square 5$$

$$3 - \square = \square 3$$

$$\square - 2 = \square 0$$

$$9 - 2 = \square$$

$$\square - 2 = \square 7$$

